



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2001/अग्रहायण 27, 1923

No. 910]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2001/AGRAHAYANA 27, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2001

**का.आ. 1228(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तात्कालिक जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 873(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 1997 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,
  - (i) क्रम संख्यांक 1 में, “मोटर वाहन में प्रयुक्त आटोमोबाइल लैम्प होगा” शब्दों के स्थान पर “मोटर यान में, प्रयुक्त आटोमोबाइल लैम्प जिसके अंदर संनिर्माण यान भी हैं”, शब्द रखे जाएंगे ;
  - (i) क्रम संख्यांक 2 में “भा मा 7079:1979”, शब्द और अंकों के स्थान पर “भा मा 7079:1995” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
  - (iii) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“5 स्टेयरिंग संघात अपेक्षा भा मा : 11939:1996 के अनुसार होगा । यह अपेक्षा भा मा 11939: 1996 में विनिर्दिष्ट यानों को लागू होगी ” ;
  - (iv) क्रम संख्यांक 7 में और उससे संबंधित विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“7 ऐसे मोटर यानों की ईंधन टंकियां, जिनमें तीन से अधिक पहिये हैं, भा मा 12056:1987 में अधिकथित अपेक्षा का अनुपालन करेंगी ।  
परंतु यह कि ऐसे मोटर यानों की प्लास्टिक ईंधन टंकियां जिनमें तीन से अधिक पहिये हैं, एआईएस-033/2001 के अनुसार होंगी” ;
  - (v) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“18 दुपहिया और तिपहिया यानों पर त्रुटिसूचक प्रतीक और नियंत्रण भा मा 14413:1996 के अनुसार होंगे” ;
  - (vi) क्रम संख्यांक 20 और उससे संबंधित विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“20 मोटर यानों के लिए जिनमें तीन से अधिक पहिये हैं प्रकाश और प्रकाश संकेत युक्तियों के लिए संस्थापन अपेक्षाएं और उनका ट्रेलर और अर्द्ध ट्रेलर, एआईएस -008/2001 के अनुसार होंगी सिवाय इसके

कि डिड बीम हैड लैम्प के उर्ध्वाधर अभिविन्यास के लिए अपेक्षा के जो एआईएस-008/2001 के खंड 6.2.6.1 के अनुसार होगी :

परंतु यह कि प्रकाश, प्रकाश संकेत और सूचन प्रणालियों के कार्य करने की अपेक्षाएं सुरक्षा मानक 15.1 के अनुसार होंगी :

परंतु यह और कि संनिर्माण उपस्कर यानों की प्रकाश, प्रकाश संकेत और सूचन प्रणालियां, सिवाय मोड़ संकेत सूचन के स्वतः रद्दकरण की अपेक्षा के, सुरक्षा मानक संख्यांक 15.1 के अनुसार होंगी :

परंतु यह भी कि सुरक्षा मानक संख्या 15.1 का ऐसा अनुपालन कृषि ट्रैक्टरों और अन्य विशेष प्रयोजन वाले मोटर यानों को लागू नहीं होगा ” ;

(vii) क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

“21 सभी मोटर यानों से विद्युत चुम्बकीय विकिरण एआईएस 004/1999 के अनुसार होगा ”;

(viii) क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित विशिष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“23. प्रत्येक मोटर यान की क्रम योग्यता एआईएस 003/1999 के अनुसार होगा ।

24. दुपहिया और तिपहिया यानों और उनके ट्रेलरों और अर्द्धट्रेलरों के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेतक युक्तियों के लिए संस्थापन अपेक्षाएं एआईएस 009/2001 के अनुसार होंगी ।

25. दुपहिया और तिपहिया वाले यानों के लिए ईंधन टंकियां, सिवाय प्लास्टिक ईंधन टंकियों के लिए पारगम्यता परीक्षण की अपेक्षा के, भा मा 14681-1999 के अनुसार होंगी ।”

2. ये संशोधन 1 जनवरी 2003 से प्रवृत्त होंगे :

परंतु खंड (vi) में निर्दिष्ट ए आई एस 008/2001 के खंड 6.2.6.1 के अनुसार डिड बीम हैड लैम्प के उर्ध्वाधर के अभिविन्यास के लिए अपेक्षा के मामले में और खंड (viii) में निर्दिष्ट प्लास्टिक ईंधन टंकियों के लिए पारगम्यता परीक्षण के मामले में ये 1 जनवरी 2005 से प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. आरटी-11011/13/2001-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2001

**S.O. 1228(E).**—In the exercise of the powers conferred by the rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Transport Wing), S.O. No. 873(E), dated the 15th December, 1997, namely :—

1. In the said notification, in the Table,—

- (i) in Sl. No. 1, for the words “Automobile lamps used in motor vehicles”, the words “Automobile lamps used in motor vehicles including construction equipment vehicles” shall be substituted;
- (ii) in Sl. No.2, for the letters and figures “IS 7079:1979”, the letters and figures “IS:7079; 1995” shall be substituted;
- (iii) for Sl. No. 5 and particulars relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“5. The steering impact requirement shall be as per IS:11939:1996. This requirement shall be applicable to vehicles specified in IS:11939:1996”;

- (iv) for Sl. No. 7 and particulars relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"7. Fuel tanks of motor vehicles having more than three wheels shall comply with the requirement laid down in IS:12056:1987:

Provided that plastic fuel tanks of motor vehicles having more than three wheels shall be in accordance with AIS-033/2001";

- (v) for Sl. No. 18 and particulars relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"18. The Tell-Tale symbols and controls on two-wheelers and three-wheelers vehicles shall be in accordance with IS:14413:1996";

- (vi) for Sl. No. 20 and particulars relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"20. Installation requirements for lighting and light signalling devices for motor vehicles having more than three wheels, and their trailers and semi trailers, shall be in accordance with AIS-008/2001, except the requirement for vertical orientation of dipped beam headlamp as per clause 6.2.6.1 of AIS-008/2001:

Provided that the performance requirements of the lighting, light signalling and indicating systems shall be in accordance with Safety Standard 15.1:

Provided further that lighting, light signalling and indicating systems of construction equipment vehicles shall be in accordance with Safety Standard No.15.1 except the requirement of self-cancellation of turn signal indication:

Provided also that such compliance of Safety Standard No. 15.1 shall not be applicable to agricultural tractors and other special purpose motor vehicles";

- (vii) for Sl. No. 21 and particulars relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"21. Electromagnetic radiation from all motor vehicles shall be in accordance with AIS-004/ 1999";

- (viii) after Sl. No. 22 and particulars relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"23. The gradeability of every motor vehicle shall be in accordance with AIS 003/1999.

24. Installation requirements for lighting and light signaling devices for two and three wheelers, and their trailers and semi trailers shall be in accordance with AIS-009/2001.

25. Fuel tanks for two and three wheelers shall be in accordance with IS:14681-1999 except the requirement for permeability test for plastic fuel tanks".

2. These amendments shall come into force on 1<sup>st</sup> January, 2003:

Provided that in the case of the requirement for vertical orientation of dipped beam headlamp as per clause 6.2.6.1 of AIS-008/2001 referred to

in clause (vi) and the permeability test for plastic fuel tanks referred to in clause (viii) shall come into force on the 1<sup>st</sup> January, 2005. •

[F. No. RT-11011/13/2001-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note:- The Principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 873 (E), dated the 15<sup>th</sup> December, 1997.